




# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)  
PART II—Section 3—Sub-section (II)प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 401]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 30, 2002/वैशाख 10, 1924

No. 401]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 30, 2002/VAISAKHA 10, 1924

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

अधिसूचना

NOTIFICATION

मुम्बई, 30 अप्रैल, 2002

Mumbai, the 30th April, 2002

का.आ. 474(अ).—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, (इसमें इसके पश्चात् "एक्सचेंज" के रूप में निर्दिष्ट) द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 3 के अधीन किए गए मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन पर विचार करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि यह व्यापार के हित में होगा और ऐसा करना लोक हित में भी होगा, एतद्वारा, अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक्सचेंज को मान्यता का नवीकरण अधिनियम की धारा 4 के अधीन 1 मई, 2002 को प्रारम्भ होने वाली और 30 अप्रैल, 2003 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए प्रतिभूतियों में संविदाओं की बाबत, इसमें विनिर्दिष्ट शर्तों या जो इसके पश्चात् विहित अथवा अधिरोपित की जाएं के अधधीन प्रदान करता है :—

S.O. 474(E).—Securities and Exchange Board of India, having considered the application for renewal of recognition made under Section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, (hereinafter referred to as "the Act") by Gauhati Stock Exchange Limited, (hereinafter referred to as "the Exchange") and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by the Act, renewal of recognition to the Exchange under Section 4 of the Act for a further period of one year commencing on the 1st day of May 2002 and ending on the 30th day of April 2003 in respect of contracts in securities, subject to the conditions specified herein or as may be prescribed or imposed hereafter :—

- (क) 'भाप्रविबो निरीक्षण रिपोर्ट (2001-2002) के खंड-V में यथा विस्तृत सुझावों का कार्यान्वयन तथा अनुपालना, और
- (ख) एक्सचेंज द्वारा उक्त सुझावों की अनुपालना के पुष्टीकरण के प्रस्तुतीकरण तथा आगे भाप्रविबो से अनुमोदन के अधधीन व्यापार प्रारंभ करेगा।

- (a) Implementation and compliance of the suggestions as detailed in Section-V of the SEBI Inspection report (2001-2002), and
- (b) Shall commence trading subject to submission of confirmation of the compliance of the said suggestions by the Exchange and further approval from SEBI.

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/7253/02]

जी.एन. बाजपेयी, अध्यक्ष

[F. No. SEBI/LE/7253/02]

G.N. BAJPAI, Chairman

